

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 जनवरी 2023

प्रश्न -1

दिसंबर 2022 में कुल कितना GST राजस्व एकत्र किया गया?

- A) 1.55 लाख करोड़ रुपये
- B) 1.52 लाख करोड़ रुपये
- C) 1.51 लाख करोड़ रुपये
- D) 1.49 लाख करोड़ रुपये

सही उत्तर: D

दिसंबर 2022 के दौरान सकल GST राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपये है , जिसमें से CGST 26,711 करोड़ रुपये , SGST 33,357 करोड़ रुपये , IGST 78,434 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 40,263 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,005 करोड़ रुपये हैं।

प्रश्न-2

हाल ही में बांग्लादेश में ढाका लिटरेरी फेस्टिवल (DLF) का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था?

- A) छट्टा
- B) पाँचवा
- C) बारहवां
- D) दसवा

सही उत्तर: D

ढाका लिटरेरी फेस्ट (DLF) का 10वां संस्करण बंगाल अकादमी मैदान , बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। DLF बांग्लादेश के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सवों में से एक है जिसमें 500 से अधिक साहित्यिक हस्तियों , फिल्म निर्माताओं , कलाकारों और विज्ञान के क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 जनवरी 2023

प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (CDTI) की आधारशिला रखी है?

- A) असम
- B) राजस्थान
- C) कर्नाटक
- D) पश्चिम बंगाल

सही उत्तर: C

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (CDTI) की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि CDTI की आधारशिला रखने के साथ ही पुलिस बलों के लिए सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए एक कड़ी शुरू की गई है।

प्रश्न-4

वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया?

- A) 04 जनवरी
- B) 03 जनवरी
- C) 02 जनवरी
- D) 01 जनवरी

सही उत्तर: D

वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष 1 जनवरी को सकारात्मक रूप से वर्ष की शुरुआत करने और लोगों के बीच शांति, प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस साल की थीम है "फैमिली टुगेदर: बिल्डिंग रेजिलिएंस फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर।"

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 जनवरी 2023

प्रश्न-5

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर एंड सेनीटेशन (SPM-NIWAS) का उद्घाटन कहाँ किया है?

- A) दिल्ली
- B) कोलकाता
- C) मुंबई
- D) सूरत

सही उत्तर: B

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल के कोलकाता केडायमंड हार्बर रोड , जोका में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर एंड सेनीटेशन (SPM-NIWAS) का उद्घाटन किया। SPM-NIWAS की स्थापना लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से 8.72एकड़ भूमि पर की गई है।

प्रश्न-6

श्रीनगर में छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल ने 'जश्न-ए-चिल्लई कलां' मनाया है?

- A) ITBP
- B) CRPF
- C) CISF
- D) BSF

सही उत्तर: B

CRPF ने श्रीनगर में छात्रों के साथ 'जश्न-ए-चिल्लई कलां' मनाया। चिल्लई-कलां हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक 40 दिनों की अवधि के लिए कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि होती है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 जनवरी 2023

प्रश्न-7

निम्नलिखित में से कौन "ब्रेकिंग बैरियर्स: द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी" पुस्तक के लेखक हैं?

- A) डी. सुब्बाराव
- B) हरि चंदना दसारी
- C) काकी माधव राव
- D) यू. सगायम

सही उत्तर: C

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1962 बैच के अधिकारी काकी माधव राव ने 'ब्रेकिंग बैरियर्स: द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी' नामक एक नई पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक एमेस्को बुक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है।

प्रश्न-8

वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का लाभ कमाने वाला शीर्ष उद्यम है?

- A) ONGC
- B) HPCL
- C) BPCL
- D) BHEL

सही उत्तर: A

2021-22 में सबसे अधिक शुद्ध लाभ वाले शीर्ष पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSES) ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) थे।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 जनवरी 2023

प्रश्न-9

दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी?

- A) 8.40%
- B) 8.30%
- C) 8.20%
- D) 8.10%

सही उत्तर: B

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2022 में 8.00% से दिसंबर में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.30% हो गई, जो 16 महीनों में सबसे अधिक है।

प्रश्न-10

निम्नलिखित में से किस राज्य में NTPC ने पाइपड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है?

- A) गुजरात
- B) हरियाणा
- C) हिमाचल प्रदेश
- D) पंजाब

सही उत्तर: A

राज्य द्वारा संचालित बिजली प्रमुख NTPC ने घोषणा की कि उसने अपने कवास टाउनशिप, सूरत, गुजरात के पाइपड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है। यह परियोजना NTPC और गुजरात गैस (GGL) का संयुक्त प्रयास है।